



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2008/अग्रहायण 14, 1930

No. 19]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2008/AGRAHAYANA 14, 1930

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2008

New Delhi, the 2nd December, 2008

सं. 10/12/2008-एम एंड जी.—श्री शिवराज वि. पाटील
दिनांक 30 नवम्बर, 2008 से मंत्रिपरिषद् में मंत्री नहीं रहे।

No. 10/12/2008-M & G.—Shri Shivraj V. Patil has.
with effect from 30th November, 2008, ceased to be Minister
in the Council of Ministers.

निर्मलजीत सिंह कलसी, संयुक्त सचिव

NIRMALJEET SINGH KALSI, Jt. Secy.